



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 28/29 जून, 2022**

**CRACKDOWN BULANDSHAHR**

**थाना स्याना**

**थाना स्याना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 20,000-20,000 रुपये के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी राजेश व विकास घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 28/29-06-2022 की रात्रि में थाना स्याना पुलिस टीम थल तिराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि उसी समय एक बाइक पर 02 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को तेजी से मोड़कर थल गांव की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर ही उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. राजेश पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हरसेना थाना ढोलना जनपद कासगंज व 2. विकास पुत्र लखपत निवासी ग्राम नंगलाहसी थाना दादो जनपद अलीगढ के रूप में हुई हैं।** जिनको उपचार हेतु सीएचसी स्याना में भर्ती कराया गया। दोनो बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे/अपराधी है जो थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत मुअसं-1404/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर 20,000-20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। अभियुक्त राजेश व विकास के विरुद्ध थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर में लूट, गैंगस्टर एक्ट आदि अपराधों के 03-03 अभियोग पंजीकृत है।

## **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. राजेश पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हरसेना थाना ढोलना जनपद कासगंज।
2. विकास पुत्र लखपत निवासी ग्राम नंगलाहसी थाना दादो जनपद अलीगढ।

## **बरामदगी-**

- 1- 02 तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस
- 2- 01 बाइक स्पैलंडर बिना नम्बर।

## **गिरफ्तार अभियुक्त राजेश का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-1079/21 धारा 392,411 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-1086/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-1404/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

## **गिरफ्तार अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-1079/21 धारा 392,411 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-1087/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-1404/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।



मीडिया सेल बुलंदशहर